

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 14, 1969/आश्विन 22, 1891
No. 164] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 1969/ASVINA 22, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND
COMPANY AFFAIRS**

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October 1969

G.S.R. 2438.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (I of 1956), the Central Government hereby appoints Shri G. A. Shah to be a Member of the Company Law Board, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 177 dated the 1st February, 1964, as amended from time to time, namely:

In the said notification, in clause (a), for entry (3), the following entry shall be substituted, namely:—

“(3) Shri G. A. Shah”.

2. This appointment takes effect from 13th October, 1969.

[1/18/69-Admn.I.]

A. C. BOSE, Jt. Secy.

(671)

